



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3389]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940

No. 3389]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सं. 30/2015-2020

विषय: अधिसूचना सं. 25/2015-2020 दिनांक 17 अगस्त, 2018 से संबंधित शुद्धिपत्र।

का.आ. 4197(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं० 25/2015-2020 दिनांक 17 अगस्त 2018 में संशोधन को अधिसूचित करती है जिसके तहत एचएसकोड 2713 11 00, 2713 12 00, 2713 20 00 और 2713 90 00 के अंतर्गत पेटकोक की आयात नीति को “निषिद्ध” किया गया था।

2. अधिसूचना सं 25/2015-2020 दिनांक 17 अगस्त 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए एचएसकोड 2713 20 00 और 2713 90 00 पेटकोक से संबंधित नहीं होने के कारण इन दो कोडों 2713 20 00 (पेट्रोलियम बिटूमिन) और 2713 90 00 (पेट्रोलियम तेल या बिटूमिनस खनिज से प्राप्त तेल के अन्य अवशिष्ट) को अधिसूचना सं. 25 दिनांक 17 अगस्त 2018 के दायरे से बाहर किया जाता है तथा इन मदों अर्थात् पेट्रोलियम बिटूमिन (एक्जिम कोड 2713 20 00) और पेट्रोलियम तेल या बिटूमिनस खनिज से प्राप्त तेल के अन्य अवशिष्टों (एक्जिम कोड 2713 90 00) की आयात नीति को पुनः ‘मुक्त’ किया जाता है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: एचएसकोड 2713 20 00 के तहत पेट्रोलियम बिटूमिन तथा एचएस कोड 2713 90 00 के तहत पेट्रोलियम तेल अथवा बिटूमिनस खनिज से प्राप्त तेल के अन्य अवशिष्टों की आयात नीति को ‘मुक्त’ किया गया है।

(फा. सं. 01/93/180/03/एम-10/पीसी-2(क)/पार्ट-I/ई-5719)

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28 August, 2018

No. 30/2015-2020

**Subject: Corrigendum to Notification No. 25/ 2015-2020 dated 17<sup>th</sup> August, 2018**

**S.O. 4197(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies amendment to the Notification No.25/2015-2020 dated 17<sup>th</sup> August, 2018 vide which import policy of Petcoke under HS codes 2713 11 00, 2713 12 00, 2713 20 00 and 2713 90 00 were “Prohibited”.

2. In partial modification of Notification No.25/2015-2020 dated 17<sup>th</sup> August, 2018, since HS codes 2713 20 00 and 2713 90 00 are not Petcoke, these two codes 2713 20 00 (Petroleum bitumen) and 2713 90 00 (Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals) are withdrawn from the ambit of the Notification No. 25 dated 17<sup>th</sup>. August, 2018 and import policy of these items i.e **Petroleum bitumen (Exim Code 2713 20 00)** and **Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals (Exim code 2713 90 00)** is restored to ‘Free’.

2. **Effect of this Notification:** Import policy of Petroleum bitumen under HS code 2713 20 00 and Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals under HS Code 2713 90 00 is 'Free'.

[F.No. 01/93/180/03/AM-10/PC-2(A)/Part-I / e – 5719]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade and Ex- officio Addl. Secy.